

पेरसि ओलंपिक में वज़न-मापन विवाद

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, **वनिश फोगाट** (भारतीय पहलवान) दूसरी बार वज़न कम करने में **वफिल रही**, जिसके कारण वह **स्वर्ण पदक** मुकाबले में भाग नहीं ले पाई, जिससे पेरसि ओलंपिक में पदक जीतने की उनकी संभावना समाप्त हो गई। वज़न-मापन के समय उनका वज़न 100 ग्राम अधिक था।

पेरसि ओलंपिक में वज़न-मापन विवाद क्या है?

- **पृष्ठभूमि:** पेरसि ओलंपिक में **50 किलोग्राम** में **स्वचि करने से पहले वह हाल ही में 53 किलोग्राम** वर्ग में भाग ले रही थी।
 - फोगाट का सामान्य वज़न लगभग 55-56 किलोग्राम है, जिसि उन्हें प्रतियोगिता के दिनों में कम कर 50 किलोग्राम तक करना पड़ता है।
 - अपने कठोर प्रशिक्षण के कारण, वह पहले से ही बेहद दुबली हैं और उनके शरीर में बहुत कम वसा बचा है।
- **वज़न घटाने के तरीके:** एथलीट आमतौर पर विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं-
 - **नरिजलीकरण:** पानी का सेवन कम करना और पानी का वज़न कम करने के लिये **सॉना या स्वेट सूट** का उपयोग करना।
 - **आहार प्रतिबंध:** कैलोरी का सेवन सीमिति करना और **कम कार्बोहाइड्रेट वाले आहार का सेवन करना**।
 - **व्यायाम:** कैलोरी बर्न करने और तेज़ी से वज़न कम करने के लिये **कठोर व्यायाम** करना।

पेरसि ओलंपिक 2024 में वज़न-मापन क्या है?

- **वज़न मापने के UWW नियम:** यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) के ओलंपिक वज़न मापने के नियमों के अनुसार, पहलवानों को अपनी प्रतियोगिता की **सुबह वज़न मापना** होता है।
 - एथलीट को **सभी प्रतियोगिता के दिनों में श्रेणी सीमा के बराबर या उससे कम वज़न** मापना होता है। ओलंपिक कुश्ती प्रतियोगिताएँ दो दिनों में होती हैं, जिसके लिये दोनों दिनों में वज़न मापना होता है।
 - फोगाट ने पहले दिन वज़न माप लिया, लेकिन दूसरे दिन **50 किलोग्राम की सीमा को पूरा करने में वफिल रही**, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अयोग्य घोषिति कर दिया गया।
- **वज़न माप में वफिल होने के परिणाम:** किसी भी दिन वज़न माप में वफिल होने वाले एथलीट अयोग्य घोषिति कर दिये जाते हैं और उन्हें **बिना रैंक के अंतिम स्थान** दिया जाता है, जब तक कि उन्हें पहले दिन चोट ना लगी हो।
- **चोट अपवाद:** पहले दिन घायल हुए एथलीट को दूसरे वज़न माप से छूट प्रदान की जाती है और इस तरह के मामले में संबंधित एथलीट के परिणाम को बरकरार रखा जा सकता है। लेकिन यदि उन्हें पहले दिन के बाद चोट लगती है तो ऐसे मामले में एथलीट का दूसरे वज़न माप में शामिल होना आवश्यक हो जाता है।
- **ओलंपिक कुश्ती के लिये प्रारूप में बदलाव:** वर्ष 2017 से पहले, प्रत्येक भार वर्ग में ओलंपिक कुश्ती प्रतियोगिताएँ एक ही दिन में होती थीं, जिसमें एथलीट केवल एक बार वज़न मापते थे। वर्ष 2017 में UWW ने नषिपक्षता और एथलीट सुरक्षा में सुधार के लिये दो दविसीय प्रारूप में बदलाव किया, जिसके तहत एथलीट्स को प्रतियोगिता के दोनों दिन अपना वज़न दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया।

पहले दिन वज़न सटीक होने के बाद किसी पहलवान का वज़न किलोग्राम में कैसे बढ़ सकता है?

- **पुनर्रजलीकरण और रक्विवरी:** पहले दिन वज़न करने के बाद, पहलवान **तरल पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइट्स और कार्बोहाइड्रेट** के साथ पुनर्रजलीकरण एवं पुनःपूरति करते हैं, जिससे खोया हुआ अर्धकॉश वज़न वापस आ जाता है।
- **वज़न घटाने की अस्थायी प्रकृति:** नरिजलीकरण के माध्यम से खोया हुआ वज़न ज्यादातर पानी का वज़न होता है, जो सामान्य जलयोजन और खाने के बाद **फरि से प्राप्त हो जाता है**, जिससे दूसरे दिन वज़न बढ़ जाता है।
- **प्रदर्शन पर प्रभाव:** हालाँकि पुनर्रजलीकरण ऊर्जा को बहाल करता है लेकिन वज़न में तीव्रता से होने वाला परिवर्तन प्रदर्शन को प्रभावति कर सकता है। यदि इसे सही तरीके से प्रबंधति नहीं कथिया जाता तो **थकान, ऐंठन और कम सहनशीलता जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है**।
- **रणनीतिक लाभ:** कुछ पहलवान प्रतिसिपर्धात्मक **बढ़त हासलि करने के लिये** वज़न में कटौती करते हैं और प्रतियोगिता के दिन अधिक वज़न बढ़ा लेते हैं जिससे कम वज़न वाले प्रतदिवंदियों के खिलाफ शक्ति और बढ़ जाती है।

नोट:

- पेरसि ओलंपिक में, स्वप्नलि कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
- भारत की पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता और नीरज चोपड़ा ने पेरसि ओलंपिक- 2024 में भाला फेंक में रजत पदक जीता।

और पढ़ें: [मनु भाकर ने जीता ओलंपिक कांस्य पदक, वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिये भारत की महत्तवाकांक्षा](https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/weigh-in-controversy-at-the-paris-olympics)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/weigh-in-controversy-at-the-paris-olympics>

